



बैंक ऑफ बड़ौदा
Bank of Baroda
India's International Bank

जमा पुष्टि सूचना / Deposit Confirmation Advice

SAHISHNU CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED C O ANIKET KUMAR NR BHAGWATI MANDIR MOR MOKAMA 803302 INDIA		सावधि खाता क्र./ FD A/c No	12180300029303
		सावधि सूचना क्र./ FD Advice No	FDR1807243526
		कस्टमर आईडी क्र./ Customer ID No	JNB071356
		व्यवहार खाता / Linked Operative a/c	12180200000443
		शाखा का नाम/Branch Name	MOKAMEHBIHAR
योजना / Scheme	FIXED DEPOSIT - RIRD(RES)	संयुक्त धारक / Joint Holder (s)	
नामांकन / Nomination	N		
नामिती पंजीकरण क्रमांक / Nominee Registration No.			
पैन नंबर / PAN No.	ABBCS0052K	अभिभावक का नाम (यदि खाताधारक अवयस्क है) / Guardian Name (If a/c holder is minor)	
परिचालन पद्धति / Mode of Operation	ANY ONE DIRECTOR		
Pledge to EFRWD work division Navgachia			
लियन चिह्नित / Lien Marked	Y		



जमा राशि / Deposit Amount	जारी करने की तिथि / Date of Issue	ब्याजदर / Rate of Interest	जमा की अवधि / Tenure of Deposit	परिपक्वता तिथि / Maturity Date	परिपक्वता मूल्य / Maturity Value*
110000	18-07-2024	6.85	12 Months 0 Days	18-07-2025	117731

*परिपक्वता मूल्य टीडीएस के अधीन (वर्तमान आयकर नियमों के अनुसार)/ Maturity Value is subject to TDS (as per current Income Tax rules)

नियम व शर्त/Terms & Conditions:

1. ब्याज दर प्रतिवर्ष में कार्यांक है। 2. स्वतः नवीकरण क्लॉज: i. यदि अल्पकालीन अवधि के लिए 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए कोई जमा राशि का नवीकरण देय तारीख पर प्रचलित ब्याज दरों के अनुरूप 1 वर्ष के लिए किया जाएगा। ii. कोई निदेश न दिए जाने पर 1 वर्ष से कम अवधि के लिए कोई भी जमा राशि का नवीकरण देय तारीख पर प्रचलित ब्याज दरों के अनुरूप इतनी ही अवधि के लिए किया जाएगा। 3. फॉर्म 15 जी और 15एच सिर्फ निवासी खातों के लिए है। 4. निवासी व्यक्तियों द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में इसकी निर्धारित सीमा पूरा होने से पूर्व एक नया 15 जी/15 एच (जदि लागू हो) प्रस्तुत किया जाए - अन्यथा स्वतः पर कर कटौती की जाएगी। 5. फॉर्म 15एच केवल वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष से अधिक उम्र) से ही स्वीकार किया जाएगा। 6. परिपक्वता आहरण क्लॉज: i. रु. 1 करोड़ से कम की जमा राशियों को समयपूर्व खंड करने पर 1% दंड का प्रावधान है अर्थात् ऐसी जमा राशि के जारी होने की तिथि पर लागू ब्याज दर से 1% कम ब्याज का भुगतान किया जाएगा। ii. रु. 1 करोड़ और इससे अधिक की जमा राशियों को समयपूर्व खंड करने पर 1.5% दंड का प्रावधान है अर्थात् ऐसी जमा राशि पर दंड में इसी जमाने वाली अवधि के लिए लागू ब्याज दर से 1.5% कम ब्याज का भुगतान किया जाएगा। रु. 1 करोड़ और इससे अधिक की जमा राशि के समय पूर्व आहरण के लिए जमा राशि के आहरण से कम से कम 31 दिन पहले बैंक को सूचना दी जानी चाहिए। 7. गैर प्रतियोग्य जमा के अंतर्गत - परिपक्वता पूर्व आहरण की अनुमति नहीं है।	1. Rate of Interest is in percentage per annum. 2. Automatic Renewal Clause: i) For Deposits issued for a period of 1 year and above. Deposits will be renewed for 1 year at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise. ii) For Deposits issued for a period of less than 1 year. Deposits will be renewed for the same period at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise. 3. Form 15G and 15H is applicable to Resident accounts only. 4. A fresh 15G/ 15H/ 15AA (if applicable) has to be submitted by Resident individuals for each Financial Year, prior to crossing the threshold limit, failing which TDS will be deducted. 5. Form 15H can be accepted only from senior citizens (age of 60 years or more). 6. Premature Withdrawal Clause i) Premature withdrawal of deposit less than Rs. 1 crore will attract 1% penalty i.e. 1% less than card rate as on the date of deposit for the period for which deposit has remained with Bank. ii) Premature withdrawal of deposit for Rs. 1 crore and above will attract 1.5% penalty i.e. 1.5% less than card rate as on the date of deposit for the period for which deposit has remained with Bank. For premature withdrawal of deposit Rs. 1 crore and above a withdrawal notice of minimum 31 days prior to withdrawal of deposit is to be given to Bank. 7. In case of "NON-CALLABLE DEPOSIT" - Premature withdrawal not allowed.
--	--

Please note, this is a system generated advice and does not require any signature



Scanned with OKEN Scanner



बैंक ऑफ बड़ोदा
Bank of Baroda
India's International Bank



जमा पुष्टि सूचना / Deposit Confirmation Advice

SAHISHNU CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED

C O ANIKET KUMAR NR BHAGWATI MANDIR
MOR MOKAMA
803302
INDIA

सावधि खाता क्र./ FD A/c No 12180300029302

सावधि सूचना क्र./ FD Advice No FDR1807243603

कस्टमर आईडी क्र./ Customer ID No JNB071356

व्यवहार खाता / Linked Operative a/c 12180200000443

शाखा का नाम/Branch Name MOKAMEHBHAR

योजना / Scheme

FIXED DEPOSIT - RIRD(RES)

नामांकन / Nomination

N

नामिती पंजीकरण क्रमांक /
Nominee Registration No.

पैन नंबर / PAN No.

ABBCS0052K

परिचालन पद्धति / Mode of
Operation

ANY ONE DIRECTOR

संयुक्त धारक / Joint Holder (s)

अभिभावक का नाम

(यदि खाताधारक अवयस्क है) /

Guardian Name

(If a/c holder is minor)

लियन चिह्नित / Lien Marked

Y

Pledge to EERWD work division Navgachia



जमा राशि / Deposit Amount	जारी करने की तिथि / Date of Issue	ब्याजदर / Rate of Interest	जमा की अवधि / Tenure of Deposit	परिपक्वता तिथि / Maturity Date	परिपक्वता मूल्य / Maturity Value*
2185000	18-07-2024	6.50	66 Months 0 Days	18-01-2030	3115041

*परिपक्वता मूल्य टीडीएस के अधीन (वर्तमान आयकर नियमों के अनुसार) Maturity Value is subject to TDS (as per current Income Tax rules)

नियम व शर्तें/Terms & Conditions:

1. ब्याज दर प्रतिवर्ष में वार्षिक है

2. स्वतः नवीकरण कालांतर

i. यदि अवधि अनुदेशों में दिये हैं तो 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए की गई जमा राशि का नवीकरण दोपहरी पर प्रचलित ब्याज दरों के अनुरूप 1 वर्ष के लिए किया जाएगा

ii. कोई निर्देश न दिए जाने पर 1 वर्ष से कम अवधि के लिए की गई जमा राशि का नवीकरण दोपहरी पर प्रचलित ब्याज दरों के अनुरूप इतनी ही अवधि के लिए किया जाएगा

3. फॉर्म 15 जी और 15 एच सिर्फ निवासी खातों के लिए है

4. निवासी व्यक्तियों द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में इनकी निर्धारित सीमा पूरा होने से पूर्व एक नया 15 जी/ 15 एच (यदि लागू हो) प्रस्तुत किया जाए, अन्यथा स्रोत पर कर कटौती की जाएगी

5. फॉर्म एच केवल वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष से अधिक उम्र) से ही स्वीकार किया जाएगा

6. परिपक्वता आहरण धारा:

i. रु. 1 करोड़ से कम की जमा राशियों को समग्रपूर्व खंड करने पर 1% दंड का प्रावधान है अर्थात् ऐसी जमा राशि के जारी होने की तिथि पर लागू कार्ड दर से 1% कम ब्याज का भुगतान किया जाएगा

ii. रु. 1 करोड़ और इससे अधिक की जमा राशियों को समग्रपूर्व खंड करने पर 1.5% दंड का प्रावधान है अर्थात् ऐसी जमा राशि पर बैंक में रखी जाने वाली अवधि के लिए लागू कार्ड दर से 1.5% कम ब्याज का भुगतान किया जाएगा रु. 1 करोड़ और इससे अधिक की जमा राशि को समग्र पूर्व आहरण के लिए जमा राशि के आहरण से कम से कम 31 दिन पहले बैंक को सूचना दी जानी चाहिए

7. गैर प्रतिद्वेष जमा के अंतर्गत - परिपक्वता पूर्व आहरण को अनुमति नहीं है

1. Rate of Interest is in percentage per annum.

2. Automatic Renewal Clause:-

i) For Deposits issued for a period of 1 year and above. Deposits will be renewed for 1 year at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise

ii) For Deposits issued for a period of less than 1 year. Deposits will be renewed for the same period at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise

3. Form 15G and 15H is applicable to Resident accounts only

4. A fresh 15G/ 15H/ 15AA (if applicable) has to be submitted by Resident individuals for each Financial Year, prior to crossing the threshold limit, failing which TDS will be deducted

5. Form 15H can be accepted only from senior citizens (age of 60 years or more)

6. Premature Withdrawal Clause:

i) Premature withdrawal of deposit less than Rs. 1 crore will attract 1% penalty i.e. 1% less than card rate as on the date of deposit for the period for which deposit has remained with Bank

ii) Premature withdrawal of deposit for Rs. 1 crore and above will attract 1.5% penalty i.e. 1.5% less than card rate as on the date of deposit for the period for which deposit has remained with Bank. For premature withdrawal of deposit Rs. 1 crore and above, a withdrawal notice of minimum 31 days prior to withdrawal of deposit is to be given to Bank.

7. In case of 'NON-CALLABLE DEPOSIT' - Premature withdrawal not allowed

Please note, this is a system generated advice and does not require any signature



Scanned with OKEN Scanner